

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जून 2014—ज्येष्ठ 21, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जून 2014

क्र. एफ-16-24-2014-एक-1320.—संविधान के अनुच्छेद 243-ट के तहत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों में निहित है. स्थानीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु इन संस्थाओं के नियमित एवं निरंतर निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं.

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपनी संस्था के लिये एक लोगो निर्धारित किया गया है. इस तरह देश के कई राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा भी अपना लोगो बनाया गया है. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी अपना लोगो तैयार किया गया है, जिसका उपयोग आयोग के द्वारा पत्राचार, अभिलेखों तथा अपनी समस्त भौतिक एवं प्रचार सामग्री में किया जा सकेगा.



( मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग )

हस्ता./-

( ए. के. शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.